



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248438
CG-DL-E-31082023-248438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499]
No. 499]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 639(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में :-
(क) भाग - I और उससे सम्बंधित प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी;
(ख) भाग - II में, -
(i) शीर्षक, अर्थात् "भाग - II अधीनस्थ कार्यालयों के पद" को हटा दिया जाएगा;
(ii) स्तंभ (7) के अधीन, मद संख्या (ii) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियां हटा दिए जाएंगे;
(iii) स्तंभ (10) के अधीन, -

(क) मद संख्या (i), (ii) और (iii) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः -

“(i) (क) 100 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर, भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के अस्थायी प्रास्थिति प्रदत्त नैमित्तिक श्रमिकों में से, जिसके न हो सकने पर;

(ख) ज्येष्ठता के आधार पर, भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व भर्ती नैमित्तिक श्रमिक, जो दिन में आठ घंटे के लिए कार्यरत हैं, की नियुक्ति से, जिसके न हो सकने पर;

(ग) ज्येष्ठता के आधार पर, भर्ती करने वाला प्रभाग या इकाई के 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व भर्ती अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों से, जिसके न हो सकने पर;

(घ) ज्येष्ठता के आधार पर, सर्कल के सभी अन्य प्रभागों या इकाइयों के अस्थायी प्रास्थिति प्रदत्त नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर;

(ङ.) ज्येष्ठता के आधार पर, 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व लगे हुए सर्कल के सभी अन्य प्रभागों या इकाइयों के नैमित्तिक श्रमिक, जो दिन में आठ घंटे के लिए कार्यरत हैं, की नियुक्ति के द्वारा, जिसके न हो सकने पर;

(च) ज्येष्ठता के आधार पर 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व लगे हुए सर्कल के सभी अन्य प्रभागों या इकाइयों के अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर भरी न गई रिक्तियों को निम्नलिखित बिन्दु (ii) के अनुसार भरा जाएगा;

(ii) (क) 50 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर, भर्ती करने वाले प्रभाग या इकाई के इच्छुक ग्रामीण डाक सेवकों में से, जिन्होंने रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी को या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उस क्षमता में पांच वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर भरी न गई रिक्तियों को निम्नलिखित (ii) (ख) के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा;

(ख) 50 प्रतिशत भर्ती करने वाले डाक सर्कल के केवल उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, जिन्होंने रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी को या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, उस क्षमता में तीन वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो, जिसके न हो सकने पर भरी न गई रिक्तियों को निम्नलिखित (iii) के अनुसार भरा जाएगा;

(iii) डाक विभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;”;

(ख) टिप्पण के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“3. डाक विभाग, प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से एक या अधिक डाक सर्कलों के उन ग्रामीण डाक सेवकों को दिल्ली डाक सर्कल में नियुक्ति के लिए अनुमति दे सकता है, जो अन्यथा, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पात्र हैं और ऐसी नियुक्ति, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी”;

(iv) स्तंभ (12) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

“समूह ‘ग’ विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: -

(1.) सहायक महा डाकपाल या ज्येष्ठ डाकघर अधीक्षक या रेल मेल सेवा के ज्येष्ठ अधीक्षक या सहायक निदेशक या डाकघर अधीक्षक या रेल मेल सेवा के अधीक्षक – अध्यक्ष;

(2.) दो समूह ‘ख’ (राजपत्रित) अधिकारी – सदस्य।”।

[फा. सं. 37-33/2009-एसपीएन-1]

जगदीप गुप्ता, उप महानिदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 16 अगस्त, 2018 में सा.का.नि. 781(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात 15 नवम्बर, 2019 में सा.का.नि. 850(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2023

G.S.R. 639(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Posts (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Department of Posts (Multi Tasking Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Department of Posts (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018, in the Schedule,—
 - (a) PART-I and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (b) In PART II,—
 - (i) the Heading, namely, “PART II - Posts of Subordinate Office” shall be omitted;
 - (ii) under column (7), item number (ii) and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (iii) under column (10), —
 - (A) for item numbers (i), (ii) and (iii) and the entries relating thereto, the following items shall be substituted, namely:-
 - “(i) (a) 100 per cent by appointment of casual labourers of the recruiting Division or Unit, conferred with temporary status, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which;
 - (b) by appointment of casual labourers of the recruiting Division or Unit, engaged on or before 1st September, 1993, working for eight hours in a day, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which;
 - (c) by appointment of part-time casual labourers of the recruiting Division or Unit, engaged on or before 1st September, 1993, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which;
 - (d) by appointment of casual labourers of all the other Divisions or Units of the Circle, conferred with temporary status, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which;
 - (e) by appointment of casual labourers of all the other Divisions or Units of the Circle, engaged on or before 1st September, 1993, working for eight hours in a day, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which;

(f) by appointment of part-time casual labourers of all the other Divisions or Units of the Circle, engaged on or before 1st September, 1993, on the basis of seniority-cum-fitness, failing which, unfilled vacancies shall be filled as per (ii) below;

(ii) (a) 50 per cent on the basis of seniority-cum-fitness from amongst willing Gramin Dak Sevaks of the recruiting Division or Unit, who have worked regularly for five years in that capacity, as on 1st day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time, failing which, unfilled vacancies shall be added to the number of vacancies to be filled as per (ii)(b) below;

(b) 50 per cent on the basis of competitive examination restricted to Gramin Dak Sevaks of the recruiting Postal Circle, who have worked regularly for three years in that capacity, as on 1st day of January of the year to which the vacancy belong to or as per the guidelines issued by the Central Government from time to time, failing which, unfilled vacancies shall be filled as per (iii) below;

(iii) by direct recruitment from open market as per the scheme circulated by the Department of Posts from time to time;”;

(B) in the Note, after item number 2 and the entries relating thereto, the following item shall be inserted, namely:-

“3. Department of Posts, through administrative instructions, may allow Gramin Dak Sevaks of one or more Postal Circles, who are otherwise eligible as per the provisions of these rules, for appointment in Delhi Postal Circle and such appointment shall be subject to such terms and conditions as may be decided by the Department of Posts from time to time.”;

(iv) under column (12), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-

- (1.) Assistant Postmaster General or Senior Superintendent of Post Offices or Senior Superintendent of Railway Mail Service or Assistant Director or Superintendent of Post Offices or Superintendent of Railway Mail Service – Chairman;
- (2.) Two Group ‘B’ (Gazetted) Officers – Member.”.

[F. No. 37-33/2009-SPN-I]

JAGDEEP GUPTA, Dy. Director General

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 781(E), dated the 16th August, 2018 and subsequently amended *vide* G.S.R. 850(E), dated the 15th November, 2019.